

गथ'साफोरा बेफोरखौ सोलोंजोबो...

थाखो I सानखान्थि

मुवाफोरखौ
20
सिम सानो



14

सानफ्रोमबोनि
जिवाव 1 निफ्राय 20
सिमनि दाजाबनाय
आरो दानख'नायखौ
बाहायो।

$$10 + 5 = 15$$

$$18 - 2 = 16$$

रोखोमसे नडिमहर
(Units) जैर- आसि,
आखाइनि अरथाय
आखान्थिनि लावथाय,
सागान आरिखौ
सानदाडे आरो सुयो।



गोरलै महरनि
दाथाइ आरो
अनजिमाफोरखौ
सोरजियो।



1, 3, 5 ...

9 4 18
55 1 निफ्राय 1
99 सिमनि 14
11 अनजिमाफोरखौ 5
7 सिनायो आरो लिरो।
20 10

थियारि खालामनाय : हादरारि सोलोंथाइ बिजिरसं आरो
फोरोंथाइ गथुम, गोदान दिल्ली
राव सोलायनाय : हादरसायारि सोलोंथाइ बिजिरसं आरो
फोरोंथाइ गथुम, आसाम, गुवाहाटी

थाखो II : सानखान्थि



गथ'साफोरा बेफोरखौ सोलोंजोबो

गोलाव समनि गेजेराव जानाय जाथायफोरखौ घन्टा / सान हिसाबै फारियै साजायो।

बायदिरोखोमनि आखिनाथ हांखो बोनायाव गेबेंयै बोयो/आखियो (थोंगोर, समानथालाये, खेंस्ला)



थियारि खालामनाय : हादरारि सोलोंथाइ बिजिरसं आरो फोरोंथाइ गथुम, गोदान दिल्ली राव सोलायनाय : हादरसायारि सोलोंथाइ बिजिरसं आरो फोरोंथाइ गथुम, आसाम, गुवाहाटी

गथ'साफोरा :

- 1 निफ्राय 999 सिम अनजिमाफोरखौ लिरो आरो फरायो।
- सानफ्रोमबोनि जिवाव नांनाय मोनथाम बिसान गोनां अनजिमाफोरनि दाजाबनाय आरो दानख'नायनि जेंनाखौ हानजा खालामना एबा खालामाब्लानो सुस्राडे।
- सानफ्रोमबोनि जिवाव 2, 3, 4, 5 आरो 10 नि सानजाब फारिखौ दायो आरो बाहायो।
- राननायखौ समानै हानजा खालामनाय / बाहागो खालामना फोरमायो।
- अनजिमाफोरखौ गले गले दानख'नायजों रानो।
- 2 D दाथायफोरखौ बेफोरनि रुगुं (Sides), खना आरो खना दाजाब हांखोफोरखौ सानना सिनायो।
- जानथाइ सुनायाव बाहायनाय जौगा सानगुदि जेरै सेन्टिमिटर एबा मिटर बाहायना लिरथाय आरो गोहोखौ जौगा नडि सानगुदियाव सानदां आरो सु।
- गंसे घरी बाहायना घन्टासेसिमनि समखौ गेबेडै फरायो।
- पेटार्नखौ गोरलै दाथाय आरो अनजिमायाव फेहेरो।
- खारिफोरखौ सावगारिजों दिन्थियो आरो जोबथा हांखो बोयो।

गथ'साफोरा :

- रां, लावथाय, जथाय आरो हानाय गोहोनि बेलायाव सानफ्रोमबोनि जेंनाखौ मोनब्रै खान्थि (दाजाब, दानख', सानजाबनाय आरो राननाय) जों सुम्राडो।
- होखानाय सावगारिनि खावसे, ब्रै बाहागोनि से आरो ब्रै बाहागोनि थाम आरिखौ सिनायो।
- मुवाफोरखौ बुथुमो आरो बेफोरखौ दिन्थिसिन बाहायना दिन्थियो।
- मोनसे बेंखन मिरु, सखाव आरो खाव हांखोखौ सिनायो।
- खाखोर बिलाइ थनना / हाना खालिनि दाग होना रुजुथायनि सानखांथिखौ दिन्थियो।
- गोरलै भुमसुवारि दाथाय (आखान्थिथाम, आखान्थिब्रै, बर्ग) फोरनि जायगा आरो गोसारथिखौ खोन्दो हिसाबै फोरमायो।
- सानफ्रोमबोनि मावफारिनि समनि लावथायखौ सुयो।
- सानजाबनाय आरो दाजाबनाय महराव (सानजाब 9 सिम) पेटार्नखौ सिनायो।
- रुजुथाय आरो अनजिमा पेटार्ननि सायाव बिथा खालामना भुमसुवारि पेटार्नखौ सिनायो आरो फेहेरो।
- बुथुमनाय खारिखौ संलाइ / लावथिग्राफ (bargraph) आव फोरमायो आरो फोजोब हांखो बोयो।

गथ'साफोरा :

- 1000 निखुइ देरसिन अनजिमाफोरखौ फरायो आरो लिरो।
- 1000 निबो देरसिन अनजिमाखौ हानजा खालामना एबा खालामाब्लानो मोनब्रै खान्थि (दाजाबनाय, दानखनाय, सानजाबनाय आरो राननाय) नि सायाव बिथा खालामना सानफ्रोमबोनि जिवनि सानखान्थियारि जेंनाखौ सुस्राडे।
- मोनसे होखानाय बोखावखोन्दोखौ सिनायो आरो एखे बोखावखोन्दोआव फोरमायो आरो होखानाय बोखावखोन्दो जेरै- $1/2$, $1/4$, $1/5$ आरिखौ दशमिकाव फोरमायो आरो दशमिकनिफ्राय बोखावखोन्दोआव लाडे। जेरै- 0.5 , 0.25 , 0.2
- आखान्थिफोरखौ खनाथि, खनासा आरो खनामायाव बाहागो खालामो आरो सावगारि बोना दिन्थियो आरो सिन बोना दिनथियो।
- सरासनस्रायै बाहायबाय थाग्रा लावथाय, लिरथाय आरो देरथायनि देरसिन आरो दुइसिन सानगुदिखौ सिनायो आरो देरसिननिफ्राय दुइसिन सानगुदियाव सोलायो आरो दुइसिननिफ्राय देरसिन सानगुदियाव सोलायो।
- गंसे कन्टेइनार एबा बागसुनि हानाय गोहोखौ सानदां। जेरै- गंसे बालथिडा गंसे मगनिखुइ नैजिफान गेदेर। रां लावथाय, हानाय गोहो आरो सम खोन्दोनि जेंना सुस्रांनायाव सानखान्थिनि मोनब्रै खान्थिखौ बाहायो।
- आखान्थिथाम अनजिमा आरो बर्ग अनजिमाजों पेटार्नखौ सिनायो।
- सानफ्रोमबोनि जिवनि थासारिजों लोब्बा गोनां खारिफोरखौ बुथुमो, बेफोरखौ संलाइ महराव दिन्थियो आरो लावथि ग्राफाव दिन्थियो।